



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3364]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 2019/आश्विन 22, 1941

No. 3364]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2019

का. आ.3699(अ).—कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को, व्यवसाय नियमों के आबंटन के भाग III क्र. सं. 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रजातियों के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट पशुधन और कुक्कुट की नस्लों और स्तंभ (5) में उनके परिग्रहण संख्या की पहचान जनहित में आवश्यक और समीचीन है; यह अधिसूचित करती है कि पशुधन और कुक्कुट की उक्त नस्लें स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों की अधिसूचित नस्लें होंगी, जिन्हें पशुपालन, उत्पादन, प्रजनन, संरक्षण, उपयोग, उपभोग और व्यापार के उद्देश्यों के लिए रखा एवं पाला जाएगा और इस अधिसूचना के भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पूरे भारत के लिए अधिसूचित नस्लें होंगी, अर्थात्: -

तालिका

क्रम संख्या	प्रजाति	नस्ल	राज्य	परिग्रहण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गोवंश	अमृतमहल	कर्नाटक	इंडिया_कैटल_0800_अमृतमहल_03001
2.	गोवंश	बछौर	बिहार	इंडिया_कैटल_0300_बछौर_03002
3.	गोवंश	बरगुर	तमिलनाडू	इंडिया_कैटल_1800_बरगुर_03003
4.	गोवंश	डांगी	महाराष्ट्र और गुजरात	इंडिया_कैटल_1104_डांगी_03004
5.	गोवंश	देवनी	महाराष्ट्र और कर्नाटक	इंडिया_कैटल_1108_देवनी_03005
6.	गोवंश	गौलाव	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	इंडिया_कैटल_1110_गौलाव_03006
7.	गोवंश	गिर	गुजरात	इंडिया_कैटल_0400_गिर_03007
8.	गोवंश	हल्लीकर	कर्नाटक	इंडिया_कैटल_0800_हल्लीकर_03008

9.	गोवंश	हरियाणा	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान	इंडिया_कैटल_0520_हरियाणा_03009
10.	गोवंश	कांगायम	तमिलनाडू	इंडिया_कैटल_1800_कांगायम_03010
11.	गोवंश	कांकरेज	गुजरात और राजस्थान	इंडिया_कैटल_0417_कांकरेज_03011
12.	गोवंश	केनकथा	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	इंडिया_कैटल_2010_केनकथा_03012
13.	गोवंश	खेरीगढ़	उत्तर प्रदेश	इंडिया_कैटल_2000_खेरीगढ़_03013
14.	गोवंश	खिल्लार	महाराष्ट्र और कर्नाटक	इंडिया_कैटल_1108_खिल्लार_03014
15.	गोवंश	कृष्णा वैली	कर्नाटक	इंडिया_कैटल_0800_कृष्णावैली_03015
16.	गोवंश	मालवी	मध्य प्रदेश	इंडिया_कैटल_1000_मालवी_03016
17.	गोवंश	मेवाती	राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	इंडिया_कैटल_1705_मेवाती_03017
18.	गोवंश	नागौरी	राजस्थान	इंडिया_कैटल_1700_नागौरी_03018
19.	गोवंश	निमारी	मध्य प्रदेश	इंडिया_कैटल_1000_निमारी_03019
20.	गोवंश	ओंगोल	आंध्र प्रदेश	इंडिया_कैटल_0100_ओंगोल_03020
21.	गोवंश	पंवार	उत्तर प्रदेश	इंडिया_कैटल_2000_पंवार_03021
22.	गोवंश	पूंगानूर	आंध्र प्रदेश	इंडिया_कैटल_0100_पूंगानूर_03022
23.	गोवंश	राठी	राजस्थान	इंडिया_कैटल_1700_राठी_03023
24.	गोवंश	रेड कन्धारी	महाराष्ट्र	इंडिया_कैटल_1100_रेडकन्धारी_03024
25.	गोवंश	रेड सिन्धी	केवल संगठित फार्मों में	इंडिया_कैटल_0000_रेडसिन्धी_03025
26.	गोवंश	साहीवाल	पंजाब और राजस्थान	इंडिया_कैटल_1617_साहीवाल_03026
27.	गोवंश	सीरी	सिक्किम और पश्चिम बंगाल	इंडिया_कैटल_2221_सीरी_03027
28.	गोवंश	थारपारकर	राजस्थान	इंडिया_कैटल_1700_थारपारकर_03028
29.	गोवंश	अम्बलाचेरी	तमिलनाडू	इंडिया_कैटल_1800_अम्बलाचेरी_03029
30.	गोवंश	वेचूर	केरल	इंडिया_कैटल_0900_वेचूर_03030
31.	गोवंश	मोटू	उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश	इंडिया_कैटल_1526_मोटू_03031
32.	गोवंश	घुमसरी	उड़ीसा	इंडिया_कैटल_1500_घुमसरी_03032
33.	गोवंश	बिन्झरपुरी	उड़ीसा	इंडिया_कैटल_1500_बिन्झरपुरी_03033
34.	गोवंश	खैरिआर	उड़ीसा	इंडिया_कैटल_1500_खैरिआर_03034
35.	गोवंश	पुलीकुलम	तमिलनाडू	इंडिया_कैटल_1800_पुलीकुलम_03035
36.	गोवंश	कोसली	छत्तीसगढ़	इंडिया_कैटल_2600_कोसली_03036
37.	गोवंश	मलनाड गिडा	कर्नाटक	इंडिया_कैटल_0800_मलनाड गिडा_03037
38.	गोवंश	बिलाही	हरियाणा और चण्डीगढ़	इंडिया_कैटल_0532_बिलाही_03038
39.	गोवंश	गंगातीरी	उत्तर प्रदेश और बिहार	इंडिया_कैटल_2003_गंगातीरी_03039
40.	गोवंश	बद्री	उत्तराखंड	इंडिया_कैटल_2400_बद्री_03040
41.	गोवंश	लखीमी	आसाम	इंडिया_कैटल_0200_लखीमी_03041
42.	गोवंश	लद्दाखी	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_कैटल_0700_लद्दाखी_03042
43.	गोवंश	कोंकण कपिला	महाराष्ट्र और गोवा	इंडिया_कैटल_1135_कोंकणकपिला_03043
44.	भैंस	भदावरी	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	इंडिया_बफैलो_2010_भदावरी_01003
45.	भैंस	जाफराबादी	गुजरात	इंडिया_बफैलो_0400_जाफराबादी_01006

46.	भैंस	मराठवाड़ी	महाराष्ट्र	इंडिया_बफैलो_1100_मराठवाड़ी_01009
47.	भैंस	मेहसाना	गुजरात	इंडिया_बफैलो_0400_मेहसाना_01004
48.	भैंस	मुर्रा	हरियाणा	इंडिया_बफैलो_0500_मुर्रा_01001
49.	भैंस	नागपुरी	महाराष्ट्र	इंडिया_बफैलो_1100_नागपुरी_01007
50.	भैंस	नीली रावी	पंजाब	इंडिया_बफैलो_1600_नीलीरावी_01002
51.	भैंस	पंधारपुरी	महाराष्ट्र	इंडिया_बफैलो_1100_पंधारपुरी_01008
52.	भैंस	सुरती	गुजरात	इंडिया_बफैलो_0400_सुरती_01005
53.	भैंस	टोडा	तमिलनाडू	इंडिया_बफैलो_0018_टोडा_01010
54.	भैंस	बन्नी	गुजरात	इंडिया_बफैलो_0400_बन्नी_01011
55.	भैंस	चिलिका	उड़ीसा	इंडिया_बफैलो_1500_चिलिका_01012
56.	भैंस	कालाहांडी	उड़ीसा	इंडिया_बफैलो_1500_कालाहांडी_01013
57.	भैंस	लुईत (स्वैम्प)	असम और मणिपुर	इंडिया_बफैलो_0212_लुईत_01014
58.	भैंस	बरगुर	तमिलनाडू	इंडिया_बफैलो_1800_बरगुर_01015
59.	भैंस	छत्तीसगढ़ी	छत्तीसगढ़	इंडिया_बफैलो_2600_छत्तीसगढ़ी_01016
60.	बकरी	अट्टापटी ब्लैक	केरल	इंडिया_गोट_0900_अट्टापटीब्लैक_06001
61.	बकरी	बरबरी	उत्तर प्रदेश और राजस्थान	इंडिया_गोट_2017_बरबरी_06002
62.	बकरी	बीटल	पंजाब	इंडिया_गोट_1600_बीटल_06003
63.	बकरी	ब्लैक बंगाल	पश्चिम बंगाल	इंडिया_गोट_2100_ब्लैकबंगाल_06004
64.	बकरी	चांगथांगी	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_गोट_0700_चांगथांगी_06005
65.	बकरी	चेगू	हिमाचल प्रदेश	इंडिया_गोट_0600_चेगू_06006
66.	बकरी	गद्दी	हिमाचल प्रदेश	इंडिया_गोट_0600_गद्दी_06007
67.	बकरी	गंजम	उड़ीसा	इंडिया_गोट_1500_गंजम_06008
68.	बकरी	गोहिलवाडी	गुजरात	इंडिया_गोट_0400_गोहिलवाडी_06009
69.	बकरी	जखराना	राजस्थान	इंडिया_गोट_1700_जखराना_06010
70.	बकरी	जमुनापारी	उत्तर प्रदेश	इंडिया_गोट_2000_जमुनापारी_06011
71.	बकरी	कन्नौ आडु	तमिलनाडू	इंडिया_गोट_1800_कन्नौआडु_06012
72.	बकरी	कच्छी	गुजरात	इंडिया_गोट_0400_कच्छी_06013
73.	बकरी	मालाबारी	केरल	इंडिया_गोट_0900_मालाबारी_06014
74.	बकरी	मारवाड़ी	राजस्थान	इंडिया_गोट_1700_मारवाड़ी_06015
75.	बकरी	मेहसाना	गुजरात	इंडिया_गोट_0400_मेहसाना_06016
76.	बकरी	उस्मानाबादी	महाराष्ट्र	इंडिया_गोट_1100_उस्मानाबादी_06017
77.	बकरी	संगमनेरी	महाराष्ट्र	इंडिया_गोट_1100_संगमनेरी_06018
78.	बकरी	सिरोही	राजस्थान और गुजरात	इंडिया_गोट_1704_सिरोही_06019
79.	बकरी	सुरती	गुजरात	इंडिया_गोट_0400_सुरती_06020
80.	बकरी	जालावाड़ी	गुजरात	इंडिया_गोट_0400_जालावाड़ी_06021
81.	बकरी	कोंकण कन्याल	महाराष्ट्र	इंडिया_गोट_1100_कोंकणकन्याल_06022
82.	बकरी	बेरारी	महाराष्ट्र	इंडिया_गोट_1100_बेरारी_06023
83.	बकरी	पंतजा	उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश	इंडिया_गोट_2420_पंतजा_06024
84.	बकरी	टेरेसा	अंडमान एवं निकोबार	इंडिया_गोट_3300_टेरेसा_06025

85.	बकरी	कोडीआडु	तमिलनाडू	इंडिया_गोट_1800_कोडीआडु_06026
86.	बकरी	सलेम ब्लैक	तमिलनाडू	इंडिया_गोट_1800_सलेमब्लैक_06027
87.	बकरी	सुमी-ने	नागालैंड	इंडिया_गोट_1400_सुमीने_06028
88.	बकरी	काहमी	गुजरात	इंडिया_गोट_0400_काहमी_06029
89.	बकरी	रुहेलखंडी	उत्तर प्रदेश	इंडिया_गोट_2000_रुहेलखंडी_06030
90.	बकरी	असम हिल	असम और मेघालय	इंडिया_गोट_0213_असमहिल_06031
91.	बकरी	बिदरी	कर्नाटक	इंडिया_गोट_0800_बिदरी_06032
92.	बकरी	नंदीदुर्गा	कर्नाटक	इंडिया_गोट_0800_नंदीदुर्गा_06033
93.	बकरी	भकरवाली	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_गोट_0700_भकरवाली_06034
94.	भेड़	बलांगीर	उड़ीसा	इंडिया_शीप_1500_बलांगीर_14033
95.	भेड़	बेल्लारी	कर्नाटक	इंडिया_शीप_0800_बेल्लारी_14019
96.	भेड़	भकरवाल	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_शीप_0700_भकरवाल_14001
97.	भेड़	बोनपाला	सिक्किम	इंडिया_शीप_2200_बोनपाला_14034
98.	भेड़	चांगथांगी	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_शीप_0700_चांगथांगी_14002
99.	भेड़	चोकला	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_चोकला_14008
100.	भेड़	छोटा नागपुरी	झारखंड	इंडिया_शीप_2500_छोटानागपुरी_14035
101.	भेड़	कोयंबटूर	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_कोयंबटूर_14020
102.	भेड़	डक्कनी	आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	इंडिया_शीप_0111_डक्कनी_14021
103.	भेड़	गद्दी	हिमाचल प्रदेश	इंडिया_शीप_0600_गद्दी_14003
104.	भेड़	गंजम	उड़ीसा	इंडिया_शीप_1500_गंजम_14036
105.	भेड़	गेरोल	पश्चिम बंगाल	इंडिया_शीप_2100_गेरोल_14039
106.	भेड़	गुरेज	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_शीप_0700_गुरेज_14004
107.	भेड़	हसन	कर्नाटक	इंडिया_शीप_0800_हसन_14022
108.	भेड़	जैसलमेरी	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_जैसलमेरी_14009
109.	भेड़	जालौनी	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	इंडिया_शीप_2010_जालौनी_14010
110.	भेड़	कर्ना	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_शीप_0700_कर्ना_14005
111.	भेड़	केंगूरी	कर्नाटक	इंडिया_शीप_0800_केंगूरी_14023
112.	भेड़	किलाकर्सल	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_किलाकर्सल_14024
113.	भेड़	मद्रास रेड	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_मद्रासरेड_14025
114.	भेड़	मगरा	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_मगरा_14011
115.	भेड़	मालपुरा	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_मालपुरा_14012
116.	भेड़	माण्डया	कर्नाटक	इंडिया_शीप_0800_माण्डया_14026
117.	भेड़	मारवाड़ी	राजस्थान और गुजरात	इंडिया_शीप_1704_मारवाड़ी_14013
118.	भेड़	मचेरी	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_मचेरी_14027
119.	भेड़	मुज्जफरनगरी	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	इंडिया_शीप_2024_मुज्जफरनगरी_14014
120.	भेड़	नाली	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_नाली_14015
121.	भेड़	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	इंडिया_शीप_0100_नेल्लोर_14028
122.	भेड़	नीलगिरि	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_नीलगिरि_14029
123.	भेड़	पाटनवाड़ी	गुजरात	इंडिया_शीप_0400_पाटनवाड़ी_14016

124.	भेड़	पूँछी	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_शीप_0700_पूँछी_14006
125.	भेड़	पूगल	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_पूगल_14017
126.	भेड़	रामनाड व्हाइट	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_रामनाडव्हाइट_14030
127.	भेड़	रामपुर बुशैर	हिमाचल प्रदेश	इंडिया_शीप_0600_रामपुरबुशैर_14007
128.	भेड़	शाहवादी	बिहार	इंडिया_शीप_0300_शाहवादी_14037
129.	भेड़	सोनाड़ी	राजस्थान	इंडिया_शीप_1700_सोनाड़ी_14018
130.	भेड़	तिब्बतन	अरुणाचल प्रदेश	इंडिया_शीप_2300_तिब्बतन_14038
131.	भेड़	तिरुची ब्लैक	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_तिरुची ब्लैक_14031
132.	भेड़	वेम्बुर	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_वेम्बुर_14032
133.	भेड़	कच्चाइकटी ब्लैक	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_कच्चाइकटीब्लैक_14040
134.	भेड़	चेवाडु	तमिलनाडू	इंडिया_शीप_1800_चेवाडु_14041
135.	भेड़	केंद्रपाडा	ओडिशा	इंडिया_शीप_1500_केंद्रपाडा_14042
136.	भेड़	पांचाली	गुजरात	इंडिया_शीप_0400_पांचाली_14043
137.	घोड़ा	भूटिया	सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश	इंडिया_हॉर्स_2223_भूटिया_07005
138.	घोड़ा	काठियावाड़ी	गुजरात	इंडिया_हॉर्स_0400_काठियावाड़ी_07002
139.	घोड़ा	मणिपुरी	मणिपुर	इंडिया_हॉर्स_1200_मणिपुरी_07003
140.	घोड़ा	मारवाड़ी	राजस्थान	इंडिया_हॉर्स_1700_मारवाड़ी_07001
141.	घोड़ा	स्पीती	हिमाचल प्रदेश	इंडिया_हॉर्स_0600_स्पीती_07004
142.	घोड़ा	जन्सकारी	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_हॉर्स_0700_जन्सकारी_07006
143.	घोड़ा	कच्छी-सिंधी	गुजरात और राजस्थान	इंडिया_हॉर्स_0417_कच्छीसिंधी_07007
144.	ऊंट	बीकानेरी	राजस्थान	इंडिया_कैमल_1700_बीकानेरी_02001
145.	ऊंट	जैसलमेरी	राजस्थान	इंडिया_कैमल_1700_जैसलमेरी_02002
146.	ऊंट	जालोरी	राजस्थान	इंडिया_कैमल_1700_जालोरी_02004
147.	ऊंट	कच्छी	गुजरात	इंडिया_कैमल_0400_कच्छी_02007
148.	ऊंट	मालवी	मध्य प्रदेश	इंडिया_कैमल_1000_मालवी_02008
149.	ऊंट	मारवाड़ी	राजस्थान	इंडिया_कैमल_1700_मारवाड़ी_02003
150.	ऊंट	मेवाड़ी	राजस्थान	इंडिया_कैमल_1700_मेवाड़ी_02005
151.	ऊंट	मेवाती	राजस्थान और हरियाणा	इंडिया_कैमल_1705_मेवाती_02006
152.	ऊंट	खड़ाई	गुजरात	इंडिया_कैमल_0400_खड़ाई_02009
153.	सुअर	घूंगरू	पश्चिम बंगाल	इंडिया_पिग_2100_घूंगरू_09001
154.	सुअर	नियांग मेघा	मेघालय	इंडिया_पिग_1300_नियांगमेघा_09002
155.	सुअर	अगोंडा गोअन	गोवा	इंडिया_पिग_3500_अगोंडागोअन_09003
156.	सुअर	तेनी वो	नागालैंड	इंडिया_पिग_1400_तेनीवो_09004
157.	सुअर	निकोबारी	अंडमान एवं निकोबार	इंडिया_पिग_3300_निकोबारी_09005
158.	सुअर	दूम	आसाम	इंडिया_पिग_0200_दूम_09006
159.	सुअर	जोवाँक	मिजोरम	इंडिया_पिग_2700_जोवाँक_09007
160.	सुअर	घुर्रा	उत्तर प्रदेश	इंडिया_पिग_2000_घुर्रा_09008
161.	गधा	स्पीती	हिमाचल प्रदेश	इंडिया_डंकी_0600_स्पीती_05001

162.	गधा	हलारी	गुजरात	इंडिया_डंकी_0400_हलारी_05002
163.	याक	अरुणाचली	अरुणाचल प्रदेश	इंडिया_याक_2300_अरुणाचली_16001
164.	मुर्गी	अंकलेश्वर	गुजरात	इंडिया_चिकेन_0400_अंकलेश्वर_12001
165.	मुर्गी	असील	छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश	इंडिया_चिकेन_2615_असील_12002
166.	मुर्गी	बसरा	गुजरात और महाराष्ट्र	इंडिया_चिकेन_0411_बसरा_12003
167.	मुर्गी	चिट्टागोंग	मेघालय और त्रिपुरा	इंडिया_चिकेन_1319_चिट्टागोंग_12004
168.	मुर्गी	डंकी	आंध्र प्रदेश	इंडिया_चिकेन_0100_डंकी_12005
169.	मुर्गी	दाऊथीगिर	असम	इंडिया_चिकेन_0200_दाऊथीगिर_12006
170.	मुर्गी	घेघस	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	इंडिया_चिकेन_0108_घेघस_12007
171.	मुर्गी	हरिनघटा ब्लैक	पश्चिम बंगाल	इंडिया_चिकेन_2100_हरिनघटाब्लैक_12008
172.	मुर्गी	कड़कनाथ	मध्य प्रदेश	इंडिया_चिकेन_1000_कड़कनाथ_12009
173.	मुर्गी	कालास्थी	आंध्र प्रदेश	इंडिया_चिकेन_0100_कालास्थी_12010
174.	मुर्गी	कश्मीर फवोरोल्ला	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_चिकेन_0700_कश्मीरफवोरोल्ला_12011
175.	मुर्गी	मिरी	असम	इंडिया_चिकेन_0200_मिरी_12012
176.	मुर्गी	निकोबारी	अंडमान एवं निकोबार	इंडिया_चिकेन_3300_निकोबारी_12013
177.	मुर्गी	पंजाब ब्राउन	पंजाब और हरियाणा	इंडिया_चिकेन_1605_पंजाब ब्राउन_12014
178.	मुर्गी	टेलीचेरी	केरल	इंडिया_चिकेन_0900_टेलीचेरी_12015
179.	मुर्गी	मेवाड़ी	राजस्थान	इंडिया_चिकेन_1700_मेवाड़ी_12016
180.	मुर्गी	कौनयेन	मणिपुर	इंडिया_चिकेन_1200_कौनयेन_12017
181.	मुर्गी	हंसली	ओडिशा	इंडिया_चिकेन_1500_हंसली_12018
182.	मुर्गी	उत्तरा	उत्तराखंड	इंडिया_चिकेन_2400_उत्तरा_12019
183.	गीज	कश्मीर अंज़	जम्मू एवं कश्मीर	इंडिया_गीज_0700_कश्मीरअंज़_18001
184.	बत्तख	पाती	असम	इंडिया_डक_0200_पाती_11001

[फा. सं. D-4/08/2019-IC-I]

उदय शंकर पांडे, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE**(Department of Agricultural Research and Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2019

S.O.3699(E).—In exercise of the powers conferred on Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India under PART III, Sl. no. 7 of the Allocation of Business Rules, the Central Government hereby decides that it is necessary and expedient in public interest to recognise the breeds of livestock and poultry specified in column (3) and their Accession Number in column (5) of species mentioned in column (2) of the Table below; it is hereby notified that the said breeds of livestock and poultry shall be the notified breeds of the States mentioned in column (4) to be kept and reared for purposes of animal husbandry, production, breeding, conservation, utilization, consumption and trade; and shall be the notified breeds for the whole of India for the above purposes with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette of Govt. of India, namely:-

TABLE

Serial number	Species	Breed	States	Accession Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cattle	Amritmahal	Karnataka	INDIA_CATTLE_0800_AMRITMAHAL_03001
2.	Cattle	Bachaur	Bihar	INDIA_CATTLE_0300_BACHAUR_03002
3.	Cattle	Bargur	Tamil Nadu	INDIA_CATTLE_1800_BARGUR_03003
4.	Cattle	Dangi	Maharashtra and Gujarat	INDIA_CATTLE_1104_DANGI_03004
5.	Cattle	Deoni	Maharashtra and Karnataka	INDIA_CATTLE_1108_DEONI_03005
6.	Cattle	Gaolao	Maharashtra and Madhya Pradesh	INDIA_CATTLE_1110_GAOLAO_03006
7.	Cattle	Gir	Gujarat	INDIA_CATTLE_0400_GIR_03007
8.	Cattle	Hallikar	Karnataka	INDIA_CATTLE_0800_HALLIKAR_03008
9.	Cattle	Hariana	Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan	INDIA_CATTLE_0520_HARIANA_03009
10.	Cattle	Kangayam	Tamil Nadu	INDIA_CATTLE_1800_KANGAYAM_03010
11.	Cattle	Kankrej	Gujarat and Rajasthan	INDIA_CATTLE_0417_KANKREJ_03011
12.	Cattle	Kenkatha	Uttar Pradesh and Madhya Pradesh	INDIA_CATTLE_2010_KENKATHA_03012
13.	Cattle	Kherigarh	Uttar Pradesh	INDIA_CATTLE_2000_KHERIGARH_03013
14.	Cattle	Khillar	Maharashtra and Karnataka	INDIA_CATTLE_1108_KHILLAR_03014
15.	Cattle	Krishna Valley	Karnataka	INDIA_CATTLE_0800_KRISHNAVALLEY_03015
16.	Cattle	Malvi	Madhya Pradesh	INDIA_CATTLE_1000_MALVI_03016
17.	Cattle	Mewati	Rajasthan, Haryana and Uttar Pradesh	INDIA_CATTLE_1705_MEWATI_03017
18.	Cattle	Nagori	Rajasthan	INDIA_CATTLE_1700_NAGORI_03018
19.	Cattle	Nimari	Madhya Pradesh	INDIA_CATTLE_1000_NIMARI_03019
20.	Cattle	Ongole	Andhra Pradesh	INDIA_CATTLE_0100_ONGOLE_03020
21.	Cattle	Ponwar	Uttar Pradesh	INDIA_CATTLE_2000_PONWAR_03021
22.	Cattle	Punganur	Andhra Pradesh	INDIA_CATTLE_0100_PUNGANUR_03022
23.	Cattle	Rathi	Rajasthan	INDIA_CATTLE_1700_RATHI_03023
24.	Cattle	Red Kandhari	Maharashtra	INDIA_CATTLE_1100_REDKANDHARI_03024
25.	Cattle	Red Sindhi	On organized farms only	INDIA_CATTLE_0000_REDSINDHI_03025
26.	Cattle	Sahiwal	Punjab and Rajasthan	INDIA_CATTLE_1617_SAHIWAL_03026
27.	Cattle	Siri	Sikkim and West Bengal	INDIA_CATTLE_2221_SIRI_03027
28.	Cattle	Tharparkar	Rajasthan	INDIA_CATTLE_1700_THARPARKAR_03028
29.	Cattle	Umblachery	Tamil Nadu	INDIA_CATTLE_1800_UMBLACHERY_03029
30.	Cattle	Vechur	Kerala	INDIA_CATTLE_0900_VECHUR_03030
31.	Cattle	Motu	Odisha, Chhattisgarh and Andhra Pradesh	INDIA_CATTLE_1526_MOTU_03031
32.	Cattle	Ghumusari	Odisha	INDIA_CATTLE_1500_GHUMUSARI_03032
33.	Cattle	Binjharpuri	Odisha	INDIA_CATTLE_1500_BINJHARPURI_03033
34.	Cattle	Khariar	Odisha	INDIA_CATTLE_1500_KHARIAR_03034

35.	Cattle	Pulikulam	Tamil Nadu	INDIA_CATTLE_1800_PULIKULAM_03035
36.	Cattle	Kosali	Chhattisgarh	INDIA_CATTLE_2600_KOSALI_03036
37.	Cattle	Malnad Gidda	Karnataka	INDIA_CATTLE_0800_MALNADGIDDA_03037
38.	Cattle	Belahi	Haryana and Chandigarh	INDIA_CATTLE_0532_BELAHI_03038
39.	Cattle	Gangatiri	Uttar Pradesh and Bihar	INDIA_CATTLE_2003_GANGATIRI_03039
40.	Cattle	Badri	Uttarakhand	INDIA_CATTLE_2400_BADRI_03040
41.	Cattle	Lakhimi	Assam	INDIA_CATTLE_0200_LAKHIMI_03041
42.	Cattle	Ladakhi	Jammu and Kashmir	INDIA_CATTLE_0700_LADAKHI_03042
43.	Cattle	Konkan Kapila	Maharashtra and Goa	INDIA_CATTLE_1135_KONKANKAPILA_03043
44.	Buffalo	Bhadawari	Uttar Pradesh and Madhya Pradesh	INDIA_BUFFALO_2010_BHADAWARI_01003
45.	Buffalo	Jaffarabadi	Gujarat	INDIA_BUFFALO_0400_JAFFARABADI_01006
46.	Buffalo	Marathwadi	Maharashtra	INDIA_BUFFALO_1100_MARATHWADI_01009
47.	Buffalo	Mehsana	Gujarat	INDIA_BUFFALO_0400_MEHSANA_01004
48.	Buffalo	Murrah	Haryana	INDIA_BUFFALO_0500_MURRAH_01001
49.	Buffalo	Nagpuri	Maharashtra	INDIA_BUFFALO_1100_NAGPURI_01007
50.	Buffalo	Nili Ravi	Punjab	INDIA_BUFFALO_1600_NILIRAVI_01002
51.	Buffalo	Pandharpuri	Maharashtra	INDIA_BUFFALO_1100_PANDHARPURI_01008
52.	Buffalo	Surti	Gujarat	INDIA_BUFFALO_0400_SURTI_01005
53.	Buffalo	Toda	Tamil Nadu	INDIA_BUFFALO_0018_TODA_01010
54.	Buffalo	Banni	Gujarat	INDIA_BUFFALO_0400_BANNI_01011
55.	Buffalo	Chilika	Odisha	INDIA_BUFFALO_1500_CHILIKA_01012
56.	Buffalo	Kalahandi	Odisha	INDIA_BUFFALO_1500_KALAHANDI_01013
57.	Buffalo	Luit (Swamp)	Assam and Manipur	INDIA_BUFFALO_0212_LUIT_01014
58.	Buffalo	Bargur	Tamil Nadu	INDIA_BUFFALO_1800_BARGUR_01015
59.	Buffalo	Chhattisgarhi	Chhattisgarh	INDIA_BUFFALO_2600_CHHATTISGARHI_01016
60.	Goat	Attapady Black	Kerala	INDIA_GOAT_0900_ATTAPADYBLACK_06001
61.	Goat	Barbari	Uttar Pradesh and Rajasthan	INDIA_GOAT_2017_BARBARI_06002
62.	Goat	Beetal	Punjab	INDIA_GOAT_1600_BEETAL_06003
63.	Goat	Black Bengal	West Bengal	INDIA_GOAT_2100_BLACKBENGAL_06004
64.	Goat	Changthangi	Jammu and Kashmir	INDIA_GOAT_0700_CHANGTHANGI_06005
65.	Goat	Chegu	Himachal Pradesh	INDIA_GOAT_0600_CHEGU_06006
66.	Goat	Gaddi	Himachal Pradesh	INDIA_GOAT_0600_GADDI_06007
67.	Goat	Ganjam	Odisha	INDIA_GOAT_1500_GANJAM_06008
68.	Goat	Gohilwadi	Gujarat	INDIA_GOAT_0400_GOHILWADI_06009
69.	Goat	Jakhrana	Rajasthan	INDIA_GOAT_1700_JAKHRANA_06010
70.	Goat	Jamunapari	Uttar Pradesh	INDIA_GOAT_2000_JAMUNAPARI_06011
71.	Goat	Kanni Adu	Tamil Nadu	INDIA_GOAT_1800_KANNIADU_06012
72.	Goat	Kutchi	Gujarat	INDIA_GOAT_0400_KUTCHI_06013
73.	Goat	Malabari	Kerala	INDIA_GOAT_0900_MALABARI_06014
74.	Goat	Marwari	Rajasthan	INDIA_GOAT_1700_MARWARI_06015
75.	Goat	Mehsana	Gujarat	INDIA_GOAT_0400_MEHSANA_06016
76.	Goat	Osmanabadi	Maharashtra	INDIA_GOAT_1100_OSMANABADI_06017
77.	Goat	Sangamneri	Maharashtra	INDIA_GOAT_1100_SANGAMNERI_06018
78.	Goat	Sirohi	Rajasthan and	INDIA_GOAT_1704_SIROHI_06019

			Gujarat	
79.	Goat	Surti	Gujarat	INDIA_GOAT_0400_SURTI_06020
80.	Goat	Zalawadi	Gujarat	INDIA_GOAT_0400_ZALAWADI_06021
81.	Goat	Konkan Kanyal	Maharashtra	INDIA_GOAT_1100_KONKANKANYAL_06022
82.	Goat	Berari	Maharashtra	INDIA_GOAT_1100_BERARI_06023
83.	Goat	Pantja	Uttarakhand and Uttar Pradesh	INDIA_GOAT_2420_PANTJA_06024
84.	Goat	Teressa	Andaman & Nicobar	INDIA_GOAT_3300_TERESSA_06025
85.	Goat	Kodi Adu	Tamil Nadu	INDIA_GOAT_1800_KODIADU_06026
86.	Goat	Salem Black	Tamil Nadu	INDIA_GOAT_1800_SALEMBLACK_06027
87.	Goat	Sumi-Ne	Nagaland	INDIA_GOAT_1400_SUMINE_06028
88.	Goat	Kahmi	Gujarat	INDIA_GOAT_0400_KAHMI_06029
89.	Goat	Rohilkhandi	Uttar Pradesh	INDIA_GOAT_2000_ROHILKHANDI_06030
90.	Goat	Assam Hill	Assam and Meghalaya	INDIA_GOAT_0213_ASSAMHILL_06031
91.	Goat	Bidri	Karnataka	INDIA_GOAT_0800_BIDRI_06032
92.	Goat	Nandidurga	Karnataka	INDIA_GOAT_0800_NANDIDURGA_06033
93.	Goat	Bhakarwali	Jammu and Kashmir	INDIA_GOAT_0700_BHAKARWALI_06034
94.	Sheep	Balangir	Odisha	INDIA_SHEEP_1500_BALANGIR_14033
95.	Sheep	Bellary	Karnataka	INDIA_SHEEP_0800_BELLARY_14019
96.	Sheep	Bhakarwal	Jammu and Kashmir	INDIA_SHEEP_0700_BHAKARWAL_14001
97.	Sheep	Bonpala	Sikkim	INDIA_SHEEP_2200_BONPALA_14034
98.	Sheep	Changthangi	Jammu and Kashmir	INDIA_SHEEP_0700_CHANGTHANGI_14002
99.	Sheep	Chokla	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_CHOKLA_14008
100.	Sheep	Chottanagpuri	Jharkhand	INDIA_SHEEP_2500_CHOTTANAGPURI_14035
101.	Sheep	Coimbatore	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_COIMBATORE_14020
102.	Sheep	Deccani	Andhra Pradesh and Maharashtra	INDIA_SHEEP_0111_DECCANI_14021
103.	Sheep	Gaddi	Himachal Pradesh	INDIA_SHEEP_0600_GADDI_14003
104.	Sheep	Ganjam	Odisha	INDIA_SHEEP_1500_GANJAM_14036
105.	Sheep	Garole	West Bengal	INDIA_SHEEP_2100_GAROLE_14039
106.	Sheep	Gurez	Jammu and Kashmir	INDIA_SHEEP_0700_GUREZ_14004
107.	Sheep	Hassan	Karnataka	INDIA_SHEEP_0800_HASSAN_14022
108.	Sheep	Jaisalmeri	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_JAISALMERI_14009
109.	Sheep	Jalauni	Uttar Pradesh and Madhya Pradesh	INDIA_SHEEP_2010_JALAUNI_14010
110.	Sheep	Karnah	Jammu and Kashmir	INDIA_SHEEP_0700_KARNAH_14005
111.	Sheep	Kenguri	Karnataka	INDIA_SHEEP_0800_KENGURI_14023
112.	Sheep	Kilakarsal	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_KILAKARSAL_14024
113.	Sheep	Madras Red	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_MADRASRED_14025
114.	Sheep	Magra	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_MAGRA_14011
115.	Sheep	Malpura	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_MALPURA_14012
116.	Sheep	Mandya	Karnataka	INDIA_SHEEP_0800_MANDYA_14026
117.	Sheep	Marwari	Rajasthan and Gujarat	INDIA_SHEEP_1704_MARWARI_14013
118.	Sheep	Mecheri	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_MECHERI_14027
119.	Sheep	Muzzafarnagri	Uttar Pradesh and Uttarakhand	INDIA_SHEEP_2024_MUZZAFARNAGRI_14014
120.	Sheep	Nali	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_NALI_14015
121.	Sheep	Nellore	Andhra Pradesh	INDIA_SHEEP_0100_NELLORE_14028

122.	Sheep	Nilgiri	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_NILGIRI_14029
123.	Sheep	Patanwadi	Gujarat	INDIA_SHEEP_0400_PATANWADI_14016
124.	Sheep	Poonchi	Jammu and Kashmir	INDIA_SHEEP_0700_POONCHI_14006
125.	Sheep	Pugal	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_PUGAL_14017
126.	Sheep	Ramnad White	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_RAMNADWHITE_14030
127.	Sheep	Rampur Bushair	Himachal Pradesh	INDIA_SHEEP_0600_RAMPURBUSHAIR_14007
128.	Sheep	Shahbadi	Bihar	INDIA_SHEEP_0300_SHAHBADI_14037
129.	Sheep	Sonadi	Rajasthan	INDIA_SHEEP_1700_SONADI_14018
130.	Sheep	Tibetan	Arunachal Pradesh	INDIA_SHEEP_2300_TIBETAN_14038
131.	Sheep	Tiruchi Black	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_TIRUCHIBLACK_14031
132.	Sheep	Vembur	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_VEMBUR_14032
133.	Sheep	Katchaikatty Black	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_KATCHAIKATTYBLACK_14040
134.	Sheep	Chevaadu	Tamil Nadu	INDIA_SHEEP_1800_CHEVAADU_14041
135.	Sheep	Kendrapada	Odisha	INDIA_SHEEP_1500_KENDRAPADA_14042
136.	Sheep	Panchali	Gujarat	INDIA_SHEEP_0400_PANCHALI_14043
137.	Horse	Bhutia	Sikkim and Arunachal Pradesh	INDIA_HORSE_2223_BHUTIA_07005
138.	Horse	Kathiawari	Gujarat	INDIA_HORSE_0400_KATHIAWARI_07002
139.	Horse	Manipuri	Manipur	INDIA_HORSE_1200_MANIPURI_07003
140.	Horse	Marwari	Rajasthan	INDIA_HORSE_1700_MARWARI_07001
141.	Horse	Spiti	Himachal Pradesh	INDIA_HORSE_0600_SPITI_07004
142.	Horse	Zanskari	Jammu and Kashmir	INDIA_HORSE_0700_ZANSKARI_07006
143.	Horse	Kachchhi-Sindhi	Gujarat and Rajasthan	INDIA_HORSE_0417_KACHCHHISINDHI_07007
144.	Camel	Bikaneri	Rajasthan	INDIA_CAMEL_1700_BIKANERI_02001
145.	Camel	Jaisalmeri	Rajasthan	INDIA_CAMEL_1700_JAISALMERI_02002
146.	Camel	Jalori	Rajasthan	INDIA_CAMEL_1700_JALORI_02004
147.	Camel	Kutchi	Gujarat	INDIA_CAMEL_0400_KUTCHI_02007
148.	Camel	Malvi	Madhya Pradesh	INDIA_CAMEL_1000_MALVI_02008
149.	Camel	Marwari	Rajasthan	INDIA_CAMEL_1700_MARWARI_02003
150.	Camel	Mewari	Rajasthan	INDIA_CAMEL_1700_MEWARI_02005
151.	Camel	Mewati	Rajasthan and Haryana	INDIA_CAMEL_1705_MEWATI_02006
152.	Camel	Kharai	Gujarat	INDIA_CAMEL_0400_KHARAI_02009
153.	Pig	Ghoongroo	West Bengal	INDIA_PIG_2100_GHOONGROO_09001
154.	Pig	Niang Megha	Meghalaya	INDIA_PIG_1300_NIANGMEGHA_09002
155.	Pig	Agonda Goan	Goa	INDIA_PIG_3500_AGONDAGOAN_09003
156.	Pig	Tenyi Vo	Nagaland	INDIA_PIG_1400_TENYIVO_09004
157.	Pig	Nicobari	Andaman & Nicobar	INDIA_PIG_3300_NICOBARI_09005
158.	Pig	Doom	Assam	INDIA_PIG_0200_DOOM_09006
159.	Pig	Zovawk	Mizoram	INDIA_PIG_2700_ZOVAWK_09007
160.	Pig	Ghurrah	Uttar Pradesh	INDIA_PIG_2000_GHURRAH_09008
161.	Donkey	Spiti	Himachal Pradesh	INDIA_DONKEY_0600_SPITI_05001
162.	Donkey	Halari	Gujarat	INDIA_DONKEY_0400_HALARI_05002
163.	Yak	Arunachali	Arunachal Pradesh	INDIA_YAK_2300_ARUNACHALI_16001

164.	Chicken	Ankaleshwar	Gujarat	INDIA_CHICKEN_0400_ANKALESHWAR_12001
165.	Chicken	Aseel	Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh	INDIA_CHICKEN_2615_ASEEL_12002
166.	Chicken	Busra	Gujarat and Maharashtra	INDIA_CHICKEN_0411_BUSRA_12003
167.	Chicken	Chittagong	Meghalaya and Tripura	INDIA_CHICKEN_1319_CHITTAGONG_12004
168.	Chicken	Danki	Andhra Pradesh	INDIA_CHICKEN_0100_DANKI_12005
169.	Chicken	Daothigir	Assam	INDIA_CHICKEN_0200_DAOTHIGIR_12006
170.	Chicken	Ghagus	Andhra Pradesh and Karnataka	INDIA_CHICKEN_0108_GHAGUS_12007
171.	Chicken	Harringhata Black	West Bengal	INDIA_CHICKEN_2100_HARRINGHATABLACK_12008
172.	Chicken	Kadaknath	Madhya Pradesh	INDIA_CHICKEN_1000_KADAKNATH_12009
173.	Chicken	Kalasthi	Andhra Pradesh	INDIA_CHICKEN_0100_KALASTHI_12010
174.	Chicken	Kashmir Favorolla	Jammu and Kashmir	INDIA_CHICKEN_0700_KASHMIRFAVOROLLA_12011
175.	Chicken	Miri	Assam	INDIA_CHICKEN_0200_MIRI_12012
176.	Chicken	Nicobari	Andaman & Nicobar	INDIA_CHICKEN_3300_NICOBARI_12013
177.	Chicken	Punjab Brown	Punjab and Haryana	INDIA_CHICKEN_1605_PUNJABBROWN_12014
178.	Chicken	Tellichery	Kerala	INDIA_CHICKEN_0900_TELlichERY_12015
179.	Chicken	Mewari	Rajasthan	INDIA_CHICKEN_1700_MEWARI_12016
180.	Chicken	Kaunayen	Manipur	INDIA_CHICKEN_1200_KAUNAYEN_12017
181.	Chicken	Hansli	Odisha	INDIA_CHICKEN_1500_HANSLI_12018
182.	Chicken	Uttara	Uttarakhand	INDIA_CHICKEN_2400_UTTARA_12019
183.	Geese	Kashmir Anz	Jammu & Kashmir	INDIA_GEESE_0700_KASHMIRANZ_18001
184.	Duck	Pati	Assam	INDIA_DUCK_0200_PATI_11001

[F. No. D-4/08/2019-IC-I]

UDAY SHANKER PANDEY, Dy. Secy.